

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 555]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 — कार्तिक 5, शक 1943

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

सूचना

क्रमांक एफ 11-30/2020/सात-4. — छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तहसील की सीमाओं को परिवर्तित करना, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन तहसील सृजित करना तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से साठ दिवस की समाप्ति पर, प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियाँ या सुझाव, लिखित में, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व अग्रेषित किये जा सकेंगे :-

अनुसूची

स. क्र.	जिला	वर्तमान तहसील	नवीन तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	नवीन तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बलरामपुर— रामानुजगंज	वाड्डफनगर	रघुनाथनगर	राजस्व निरीक्षक मण्डल बलंगी के पटवारी हल्का नं. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 एवं 09 के कुल 27 ग्राम. राजस्व निरीक्षक मण्डल रघुनाथनगर के पटवारी हल्का नं. 10, 11, 12, 13, 14, 15 एवं 17 के कुल 21 ग्राम. अतः कुल 16 पटवारी हल्के के 48 ग्राम नवीन तहसील “रघुनाथनगर” में शामिल होंगे.	उत्तर — जिला—सोनभद्र (उ.प्र.) दक्षिण — जिला—सूरजपुर पूर्व — तहसील—वाड्डफनगर, जिला—बलरामपुर— रामानुजगंज पश्चिम— जिला— सिंगरौली (म.प्र.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	बलरामपुर— रामानुजगंज	सामरी	चान्दो	राजस्व निरीक्षक मण्डल चान्दो के पटवारी हल्का नं. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 एवं 08 के कुल 22 ग्राम. अतः कुल 08 पटवारी हल्के के 22 ग्राम नवीन तहसील "चान्दो" में शामिल होंगे.	उत्तर — झारखण्ड राज्य दक्षिण — तहसील—सामरी जिला—बलरामपुर—रामानुजगंज पूर्व — झारखण्ड राज्य पश्चिम— तहसील—बलरामपुर, जिला—बलरामपुर—रामानुजगंज
3	बलरामपुर— रामानुजगंज	बलरामपुर	डौरा—कोचली	राजस्व निरीक्षक मण्डल रनहत के पटवारी हल्का नं. 01, 02, 03, 04 एवं 05 के कुल 22 ग्राम. राजस्व निरीक्षक मण्डल पस्ता के पटवारी हल्का नं. 11, 12, 13, 14, 15, 16 एवं 17 के कुल 24 ग्राम. राजस्व निरीक्षक मण्डल भनौरा के पटवारी हल्का नं. 10 के कुल 02 ग्राम. अतः कुल 13 पटवारी हल्के के 48 ग्राम नवीन तहसील "डौरा—कोचली" में शामिल होंगे.	उत्तर — तहसील — बलरामपुर, जिला — बलरामपुर—रामानुजगंज दक्षिण — तहसील—राजपुर, जिला—बलरामपुर—रामानुजगंज पूर्व — तहसील—बलरामपुर, जिला—बलरामपुर—रामानुजगंज पश्चिम— तहसील—प्रतापपुर, जिला — सूरजपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जनक प्रसाद पाठक, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 27th October 2021

NOTICE

No. F 11-30/2020/Seven-4. — In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the said Code, the State Government proposes to alter the limits of Tahsil specified in column (3), to create a new Tahsil specified in column (4) and to define the limits thereof as specified in the Schedule below.

The proposal shall be taken into consideration on the expiry of sixty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette and any objections or suggestions in respect thereof may be forwarded, in writing to the Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Revenue and Disaster Management, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Capitol Complex, Nava Raipur Atal Nagar, District Raipur before the expiry of the said period :-

SCHEDULE

S. No.	District	Present Tahsil	New Tahsil	Nature of Change	Boundaries of new Tahsil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Balrampur-Ramanujganj	Wadrafanagar	Raghunathnagar	<p>Total 27 villages of Patwari Halka No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 and 09 of Revenue Inspector Mandal Balangi.</p> <p>Total 21 villages of Patwari Halka No. 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 17 of Revenue Inspector Mandal Raghunathnagar.</p> <p>Hence, 48 villages of total 16 Patwari Halka shall be included in new Tahsil "Raghunathnagar".</p>	<p>North – District-Sonbhadra (U.P.)</p> <p>South – District-Surajpur</p> <p>East – Tahsil-Wadrafanagar, District-Balrampur-Ramanujganj</p> <p>West – District-Singrauli (M.P.)</p>
2	Balrampur-Ramanujganj	Samri	Chando	<p>Total 22 villages of Patwari Halka No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 and 08 of Revenue Inspector Mandal Chando.</p> <p>Hence, 22 villages of total 08 Patwari Halka shall be included in new Tahsil "Chando".</p>	<p>North – Jharkhand State</p> <p>South – Tahsil-Samri, District-Balrampur-Ramanujganj</p> <p>East – Jharkhand State</p> <p>West – Tahsil-Balrampur, District-Balrampur-Ramanujganj</p>
3	Balrampur-Ramanujganj	Balrampur	Daura-Kochali	<p>Total 22 villages of Patwari Halka No. 01, 02, 03, 04 and 05 of Revenue Inspector Mandal Ranhat.</p> <p>Total 24 villages of Patwari Halka No. 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17 of Revenue Inspector Mandal Pasta.</p> <p>Total 02 villages of Patwari Halka No. 10 of Revenue Inspector Mandal Bhanaura.</p> <p>Hence, 48 villages of total 13 Patwari Halka shall be included in new Tahsil "Daura-Kochali".</p>	<p>North – Tahsil-Balrampur, District-Balrampur-Ramanujganj</p> <p>South – Tahsil-Rajpur, District-Balrampur-Ramanujganj</p> <p>East – Tahsil-Balrampur, District-Balrampur-Ramanujganj</p> <p>West – Tahsil-Pratappur, District-Surajpur</p>

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JANAK PRASAD PATHAK, Special Secretary.